

B.A part-1

Paper-1

Unit-1

Topic name- ISOSTASY

क्षेत्रले अनेक गहराई वा अस्तर होता है जिसकी आट ने कलाया हुए के समान
गहराई वा धूपता के अस्तर होता है।

ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਾਨ ਥੋਕੀ ਤੇ ਸੰਕਲਣਾ :-

हेलोड तथा बोकी ने पार से मिल्स-बुलर्स जल का प्रतिपादन किया है। हेलोड ने अमेरिका भूमध्य के बीच अमेरिका-मेक्सिको के बीच विचारणा की। परन्तु धरमल के बीच कुछ गड़बाड़ी पर एक ऐसा तब है जिसके कारण उभयने जो अंतर लगा रखे धरमल राजमा रहा है। इस तब के हेलोड ने रुमानिया तक बढ़ाया है। इस तब के ऊपर धरमल तथा हेलोड के साथ उभया ओर्जेनियल होता है। अह धरमल से 100 km की गड़बाड़ी पर विचारणा हो रही है। तब तक तीव्र रूप से धरमल के बड़ा भागों के अंतर्वाले आविष्कार हो रहा है।

आंतरिक में हम, हमें, नटीय में हम तथा तर से हर किसी
भाग की ऊँचाई के पर्याप्त उत्तर है, परन्तु इनका सुन्दरता धरनों की विविधता
से ही होता है। इस प्रकार सभी स्तरों का मर समरेण्टल एवं वराकर होता है।
‘समतोष तथा’ की विवाहारा की स्थान-क्रम के लिए बोकी ने यह अधिकार के
लिए उन्हीं लोहा, चौड़ी, ताढ़ी, सीसा, लंगता, पाइराडट, इति तथा निचें के लिए
प्रोटोकॉल तथा जोर्क और ४ हुक्के लिए, जिनकी लंबाईयां मिल-२ फीट। इन हुक्कों
की वर्ती से भरी छतीं प्रेरणा तो सभी हुक्कों का निवाला तरफ काकर था। साथ
इसी साथ कम धरने वाली हुक्के आंतरिक ऊँचाई में तथा आंतरिक धरने वाली हुक्के
की ऊँचाई भी। इस प्रकार बोकी ने यह कहाया कि समान द्वेषपूर्वकाल
भाग के लिए का मर समान होता है। इस प्रकार उन्हीं यह कहाया कि विभिन्न
आवश्यक वाले अपनी विभिन्न धरनों से सुन्दरित होकर इस प्रकार इन सभी
की साथ उपर तक समाप्ति तरफ पर उनका अर वराकर होता है।


जोड़ी की संकल्पना :-

सर 1925 ईमे लोणी मे उफेटे तथा बोली के मत का रखदान करते हुए खुल्लम के सिंहांग पर अपना मा दिया। उफेटे तथा बोली के छुरियाँ एक लामियाँ तथा होमा हैं जिन्हे ऊपर पक्की बढ़ावा है, परन्तु यही


जो इसका रखना चाहता है। जोली के बताया गया व्यवहार में ऐसा किए जिसका तरा १२% है सभा, वर्षों के अनुगमित नियाये इसमें उपलब्धि से उत्तराधिकार तया यात्रा उपस्थिति करते हैं लेकिन इसका लाभ वाले होते हैं। अब यह रखना है। जोली के अनुसार रखना बताया वाले होते हैं। यह १० लाख लोगों का होमेंट तक प्रियते घाव में परिवर्तित पाया जाता है। इस प्रकार जोली प्रति जो कम घाव वाले होते हैं वे तक तक वाले पदार्थ वाले भूषण के रूप में इसी रूप होते हैं तथा अधिक घाव वाला जारी पदार्थ है वह रूप होते हैं। इस व्यवहार के बाबत वाले जारी का विवाद है। इस रखना न होकर भूत-२ लिला है। जोली ने लमिशी तरफ से यह रखना ते रुप में यह अनुसार यात्रा १० लाख मीट्री लमिशी व्यवहार का आया है। इस व्यवहार जोली के मत में तेज़ तक सिफारिश की ज्ञान अनुच्छेद सिफारिश परन्तु यह विवार 'एक दूसरी के तेज़' के कामी का किए है। इस अत तक अनुसार हाँ के पदार्थ सियाल का कहा है, जिसका औसत घाव २.६% है तथा भू जारी वीणा का कहा है, जिसका औसत घाव ३.४% है। इस सीमा के अपर भूषण घावी उम के तरड़े तेरे रखा है। आधर डोम्स की संक्षेपता :→

आधर डोम्स का नियार भी सर जारी रखरी के भू से पर्याप्त मैल बाटा है। एक दूसरी की तरड़े डोम्स ने भी स्वीकार किया है जो अपने भू भौंकों की रखना इच्छा पदार्थों से होता है, तथा उन्हें रुद्धिमय रखने के लिए उनका अधिकारी बाग अधिक गतिशील का इवा रखता है, जिसका औसत अधिकारी का कहा जाता है। इस अनुभवीय लहरों रखने भूकुम्प-विकास के आधार पर डोम्स के उच्ची के अंदर विभिन्न घाव वाली-विभिन्न क्षती का द्वा लगाया। इस अधार पर पर्याप्तीय भौंकों के नीचे स्थिति की जड़ डोम्स है, जो वर्तमान शी इसमें अधिक गतिशील तक पहुंच है। सारं लला के लिए ऐसा

के निवास के बहुत 10-12 km. होता है। तथा समुद्र तल से ये यातं सियाल इसी ही रुपी, यह इसी भी है जो कि अधिक सलीकी है। इसके ने बताया कि यह उसे भाग इसलिए वर्षित है कि उन्हें यहाँ गहराई के द्वारा बाला दृश्य परावर्प पाया जाता है। मिलने मार्गों के द्वारा अन्य दृश्य परावर्प होते हैं। इसके अन्यसार अवधार ये व्यापि जलान पर सुन्दरी की रस्ती प्रवर्षण से नहीं पायी जाती, तथापि इसी स्थिति की ओर सुन्दरी की दृश्या दृष्टिगत होती है।



अनुभूति के अनुभूति (समान गहराई)



प्राचीन अनुभूति
(varying density but uniform depth)